



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतिधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 280]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 1984/ज्येष्ठ 25, 1906

No. 280]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 1984/JYAISTHA 25, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 जून, 1984

का०आ० 447(अ) :—यहां, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 702 (अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1978 द्वारा (जिसे हमें इसके पश्चात् उस आदेश का संशोधन किया है) चर्चोला टी एस्टेट, डा० घर स्वामी, कर्मगंज सब-डिवीजन, जिला कठार, असम नामक चाय यूनिट, जो स० चर्चोला टी कंपनी लिमिटेड, पॉ-4, न्यू हावड़ा ब्रिज, एप्रोच रोड, कलकत्ता-700001 के स्वामित्व में है, का प्रबंध चाय अधिनियम 1953 (1953 का 29) की धारा 16 के अधीन 6 दिसम्बर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, 5 वर्ष की अवधि के लिये ग्रहण किया गया था और उक्त चाय यूनिट का प्रबंध-ग्रहण करने के लिए टी ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता को प्राधिकृत किया गया था;

और यहाँ भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 891(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 30 जून, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाया गया था;

और यहाँ केन्द्रीय सरकार का राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चाय यूनिट टी ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता के प्रबंध के अधीन 31 दिसम्बर, 1984 तक का और अवधि के लिये जारी रहे;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम 1953 (1953 का 29) की धारा 16 के उपधारा (2) के पञ्चम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1984 तक की और अवधि के लिये, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा।

[का० सं० बी-12014(3)/81-वाणिज्य-क]
बी०सी० पांडे, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 15th June, 1984

S. O. 447(E):—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce

No. S. O. 702(E), dated the 7th December, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Tea Unit known as Chargola Tea Estate, P. O. Ratabari, Karimganj sub-Division, District Cachar, Assam, owned by M/s. Chargola Tea Company Ltd., P-4, New Howrah Bridge, Approach Road, Calcutta-700001 was taken over under section 16D of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), for a period of five years upto and inclusive of the 6th December, 1983 and the Tea Trading Corporation of India Ltd., Calcutta was authorised to take over the management of the said Tea Unit;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 891(E) dated the 3rd December, 1983, the dura-

tion of the said Order was extended upto and inclusive of the 30th June, 1984;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said tea unit should continue under the management of Tea Trading Corporation of India Ltd., Calcutta for a further period upto 31st December, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 16D of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1984.

[File No. B-12014(3)|81-PLA.]
Y. C. PANDE, Addl. Secy.